

GDP और उससे संबंधित पद

GDP और उससे संबंधित पद



सकल घरेलू उत्पाद (GDP):

- एक वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं/सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य
- GDP की गणना करने के 3 तरीके - व्यय, उत्पादन, आय विधि
- यह किसी देश की अर्थव्यवस्था/विकास दर का अनुमान लगाने के लिये एक आर्थिक शैपशॉट प्रदान करता है
- GDP किसी देश के समग्र जीवन स्तर/कल्याण की सटीक माप नहीं है
- $GDP = उपभोग की गई वस्तुएँ और सेवाएँ (C) + निवेश (I) + सरकारी व्यय (G) + (निर्यात (X) - आयात (M))$

| | |
|------------|--|
| GDP | किसी देश की भौतिक सीमाओं के भीतर आर्थिक गतिविधि को मापता है उत्पादक देशी या विदेशी स्वामित्व वाली संस्थाएँ हो सकती हैं |
| GNP | किसी देश के मूल निवासी लोगों/निगमों के समग्र उत्पादन को मापता है इसमें विदेश में स्थित (मूल निवासियों द्वारा) निर्माता शामिल हैं, लेकिन विदेशी स्वामित्व वाले घरेलू निर्माता शामिल नहीं हैं |
| GNI | किसी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित सभी आय का योग (घरेलू + विदेश) $GNI = घरेलू आय + अप्रत्यक्ष व्यापार कर + मूल्यह्रास + शुद्ध विदेशी कारक आय$ |

नाममात्र GDP (NGDP)

- मौजूदा कीमतों पर GDP
- इसमें मुद्रास्फीति/बढ़ती कीमतें शामिल हैं
- इसे उत्पादन की विभिन्न विमाहियों (एक ही वर्ष में) की तुलना करने के लिये उपयोग किया जाता है

वास्तविक GDP (RGDP)

- मुद्रास्फीति-समायोजित GDP
- NGDP की तुलना में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन का अधिक सटीक प्रतिबिंब
- 2 या अधिक वर्षों की GDP की तुलना करने के लिये उपयोग किया जाता है
- GDP मूल्य अवस्फीतिकारक का उपयोग करके गणना की जाती है - $(RGDP = NGDP + GDP \text{ अवस्फीतिकारक})$


$$GDP \text{ मूल्य अवस्फीतिकारक} = (NGDP \div RGDP) \times 100$$

उदाहरण: एक ऐसे देश पर विचार करते हैं जो केवल ब्रेड का उत्पादन करता है

वर्ष 2021: इसने 10 रुपये (प्रति) की कीमत पर 100 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया
अतः वर्तमान मूल्य पर $GDP = 1000$ रुपये

वर्ष 2022: इसने 15 रुपये (प्रति) की कीमत पर 110 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया
अतः वर्तमान मूल्य पर $GDP = 1650$ रुपये

वर्ष 2022 के लिये $RGDP$ (आधार वर्ष = 2021) = 110×10 रुपये = 1,100 रुपये
यहाँ GDP डिफ्लेटर होगा = $1,650 \div 1,100 = 1.50$ (या 150%)



d = मूल्यह्रास

NFIA = विदेश से शुद्ध कारक आय

NNP = सकल राष्ट्रीय उत्पाद

NDP = सकल घरेलू उत्पाद

- **कारक लागत (FC)** = किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले इनपुट का कुल मूल्य
▶ **बाज़ार मूल्य (MP)** = कारक लागत + अप्रत्यक्ष कर - सस्मिडी
- **FC पर GDP** = MP पर GDP + सस्मिडी - अप्रत्यक्ष कर
▶ **MP पर GDP** = $GVA \times MP$
▶ MP पर GDP भारत में GDP का माप है
- **सकल मूल्य वर्द्धन (GVA)** = $GDP + उत्पादों पर सस्मिडी - उत्पादों पर कर$

